MOHINDRA FASTENERS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064215

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia Email id: cs@mohindra.asia Phone: +91-11-46200400, 46200401 Fax: +91-11-462004444

To,

The Head Listing & Compliance Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (MSEI) Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C-62, G-Block Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai -400098

Ref:- Symbol- MFL, Series - BE

Subject: <u>Submission of copies of Newspaper advertisement w.r.t. 26th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submitting a soft copies of Newspaper advertisements published in the newspapers "The Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) in their edition dated September 02, 2020 w.r.t. 26th Annual General Meeting to be held on Tuesday, 29th September, 2020 through video Conference ("VC")/other audio visual means ("OAVM") in compliance with MCA General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020.

The newspaper publications are also available on the website of the company i.e. www.mohindra.asia.

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours truly,
For and on behalf of Mohindra Fasteners Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Date: 02/09/2020 Place: New Delhi केनरा बैंक Canara Bank 🚓 Philippine Syndhous

CREDIT REVIEW MONITORING & RECOVERY SECTION RO CENTRAL DELHI Telephone :- 011-26414751 (Head Office: Bangalore 560 002) **POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)]**

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the E-Syndicate (Now Canara Bank) under Securitisation And Reconstructio of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 19.02.2020 calling upon the borrower, M/S Grand Hira Resort to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 5,63,06,162.90(Rupees Five Crore Sixty three lacs Six thousand one hundred sixty two and forty one paisa) is due along with interest from 19.02.2020 and costs etc., within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act. read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this **27th** day of **August** of the year **2020**. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the propert

will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs. 5,63,06,162.90(Rupees Five Crore Sixty three lacs Six thousand one hundred sixty two and forty one paisa) is due along with interest from 19.02.2020 and interest and other charges levied thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:** secured assets.

All that part and parcel of the property consisting of property of Khasra No.s 303, 827 to 830 & 832 Village-Hamiapur (Urban Area Bhiwadi), NH-08, Tehsil-Behror, Distt Alwar, Rajasthan in the name of M/s Grand Hira Resort P Ltd, (Director Sh.Randhir Yadav S/o Sh.Brahm Singh Yadav)

Bounded: On the North by Khasra No. 834 & 289 On the East by Delhi-Jaipur Highway

On the South by Khasra No. 824 & 825 On the West by Khasra No. 302, 304 & 305

Date: 27.08.2020, Place: New Delhi Authorised Officer, Canara Bank

PEARL APARTMENTS LIMITED

(CIN NO: L70101DL1979PLC009901)

Regd. Office: 903, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 Tel No.: +91-11-23725826/27/28 Website: www.pearlapartments.co.in Email Id: pearl.secretarial@pearlmail.com PEARL STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

		0	uarter Ende	d	Year Ended
SI. No.	Particulars	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
51083	9(6.3)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Income		(V
	a) Revenue from Operations (Net of Excise Duty)	(2)	7.5	31,25,000	62,50,000
	b) Other Income	18,93,750	20,65,129	21,13,041	84,84,475
	Total Revenue	18,93,750	20,65,129	52,38,041	1,47,34,475
2	Expenses				
	a) Cost of Materials Consumed	38	34	93	*
	b) Purchase of Stock in Trade			83	**
	c) Changes in Inventories of finished goods,	2	-	- 3	2
	work in progress and stock in trade	12		A 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
	d) Employees Benefit Expenses	3.5	10,388	9,91,591	12,29,529
	e) Finance Cost	1,96,082	3,84,171	2,79,828	9,79,944
	e) Depreciation & Amortization Expenses	3,58,801	3,74,679	1,92,888	10,90,866
	f) Other Expenditure	4,67,740	12,25,537	5,84,441	46,53,820
	Total Expenses	10,22,623	19,94,776	20,48,748	79,54,159
3	Profit/(Loss) before exceptional items and tax (1-2)	8,71,127	70,353	31,89,293	67,80,316
4	Exceptional Items (Income / (Exps))	2000	864	-01.010	201000
5	Profit/(Loss) before tax (3-4)	8,71,127	70,353	31,89,293	67,80,316
6	Tax Expense	8210940281	10.785553	National State of the State of	55.0/55053350
	(a) Current tax	1,67,605	(2,17,454)	8,29,216	13,04,533
	(b) Tax for earlier year			33.00	
	(c) Mat credit availed	2	1,77,319	13	1,77,319
	(c) Deferred tax		(1,78,102)	***	(1,78,102)
	Total tax expense	1,67,605	(2,18,238)	8,29,216	13,03,749
7	Net Profit/(Loss) for the period (5-6)	7,03,522	2,88,591	23,60,076	54,76,566
8	Other Comprehensive Income (net of tax)	600000			
	a) Item that will not be reclassified to statement of Profit & Loss		125	-	
	b) Item that will be reclassified to statement of Profit & Loss	92	50	89	20
9	Total Comprehensive Income (after tax) (7+8)	7,03,522	2,88,591	23,60,076	54,76,566
10	Paid up equity share capital of Rs. 10/- each	50,00,000	50,00,000		50,00,000
11	Reserves excluding Revaluation Reserves as per	55,54,555	00,00,000	55,55,655	21,28,50,166
32	balance sheet of previous accounting year				21,20,00,100
12	Earning per Share (not annualised) (in Rs.)				
12	(Equity share par value Rs.10 each)				
	-Basic	1,41	0.58	4.72	10.95
	-Diluted	1,41	0.58	4.72	10.95

Note: The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the guarter ended June 30, 2020 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 is available on the stock exchange websites: www.msei.inand.on the Company website: www.pearlapartments.co.in.

Place: New Delhi Dated: 31" August, 2020

(Krishen Kumar Seth) (Chairman & Managing Director) DIN: 00005765

For Pearl Apartments Ltd

WHE L

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064215

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia, Email id: cs@mohindra.asia, Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11-46200444

INFORMATION REGARDING THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that:

The 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, the

29"September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing VC'/ Other Audio Visual Means 'OAVM' without the physical presence of Members of the Company at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Ministry of Corporate Affairs Circulars vide Nos. 20/2020, 17/2020 & 14/2020 dated May 5, 2020, April 13, 2020 and April 18, 2020 respectively and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as "the said Circulars"), to transact the business as set out in the Notice convening 26" e-AGM. In compliance with the MCA & SEBI Circulars, the Electronic Copies of Notice of the AGM along with Annual

Report for the financial year 2019-20 shall be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/Share Transfer Agent. Members of the Company holding shares either in physical form or in Dematerialized forms as on Benpose date i.e. Friday 28th August, 2020 will receive Annual Report along with notice of 26" AGM for the financial year 2019-20 through email only. The Notice of the 26" AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.mohindra.asia, website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in and website of the NSDL www.evoting.nsdl.com.

For members who are holding shares in physical form and who have not registered their email address and contact numbers with the Company/Depositories/Share Transfer Agent (RTA) and also in case you have not updated your bank account mandate for receipt of dividend, you may kindly register/update the same by following the process/instructions as provided in the notes of the Notice of 26th AGM:

Physical Holding: Send a signed request letter mentioning Folio No., Name of member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Company/RTA at cs@mohindra.asia /compliances@skylinerta.com. The e-mail address will be registered after verification of the signatures in the request letter with that shown or

Following additional details need to be provided in case of updating details of Bank Account mandate: a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend;

b) the Bank Account type;

c) Bank Account Number;

d) 9 digit MICR Code Number;

Date: 01.09.2020

Place : New Delhi

financialexp.epap.in

e) 11digit IFSC Code; and

f) a scanned copy of the cancelled cheque bearing the name of the first member.

De-mat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address, contact numbers and bank account details in your de-mat account, as per the process advised by your DP.

Please note that members may also use this link http://www.skylinerta.com/EmailReg.php to update their Email id, PAN & Contact number at the website of our Registrar of Share Transfer Agent M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Kindly note that your Email/ Mobile/PAN is being registered here temporarily and is subject to verification. Members holding shares in physical form may get their KYC updated by sending request to RTA at email Id compliances@skylinerta.com and members holding shares in de-mat form can contact their Depository Participant

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their vote on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will also provide the facility through e-voting system during the AGM The instructions to participate/join the AGM and the manner of casting the votes through Remote E-voting and E-Voting during the AGM by the members who are holding shares in physical form or who are have not registered their email addresses with the company will also be provided in the notes of the Notice of the 26 AGM. Members are requested to kindly view the same.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

Nidhi Pathak Company Secretary & Compliance Officer

By order of the Board

For Mohindra Fasteners Limited



This Demand Notice is hereby given under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 here in after calling upon the under mentioned Borrowers / Guarantors to repay, the Amounts outstanding for the Credit Facilities granted to them / on their Guarantee, within 60 days from the date of this Notice. If you fail to repay to the Bank the below mentioned amount with further interest and incidental expenses, costs etc. in terms of this notice u/s 13(2) of the Act, the Bank will exercise all or any of the rights detailed under Sub-Section (4) of Section 13 and under other applicable provisions of the said Act. You are also put on notice that in terms of sub-section 4 of Section 13 you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets detailed below of this notice without obtaining written consent of the Bank. The

BRANCH OFFICE: JASOLA, NEW DELHI-110025

details of the account and Secured Assets along with Amount Outstanding is given below:-SCHEDULE OF THE IMMOVABLE PROPERTY & OTHER DETAILS

Name of Borrower/ and Guarantor	Description of the Secured Assets	of 13(2) Notice
BORROWER: RAGHVENDRA SINGH S/o. Mr. Ram Bahadur Singh CO-BORROWER: MRS. SEEMA SINGH W/o. Mr. Raghvendra Singh, Both R/o. Property No.929, Entire 1st Floor (Without Roof Right) Gali No.8, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 Also at: Post Jamalpur, Thana Sikanderpur, Ballia, U.P221717.	Residential Property of Entire First Floor (Upto Ceiling Level Without Terrace Rights) of Property No.929, Gali No.8, Area Measuring 60 Sq.Yds. Out of Khasra No.93, Situated at Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019. In the name of Mr. Raghvendra Singh. Bounded by the (As per Valuation/Legal/Opinion/Present Status): North: Passage/Part of Property No.929 South: Other's Property East: Property No.928 West: Other's Property	NPA on 31.032019 Rs.15,13,823/- + Interest due to us as on 10.08.2020 (Which represents the principal plus interest due on the date of this notice)

Your attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

PLACE: NEW DELHI

Central Bank of India, Jasola, New Delhi DATE: 10.08.2020

6	संबद्ध	d'a situs et il Bank of In
ert A men	Cevare	TERVINAL TO YOU BY
Matter	to bear	DI

Central Bank of India Regional Office: K. P. Complex, Near Hotel Park Plaza, Ludhlana, Ph. No : 0161-2407946, 2422854, 2408361

noveable Property/ies | Notice u/s 13(2) | Demand Notice

Authorised Officer.

EMAND NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002 A Notice is hereby given that the following borrowers have defaulted in the repayment of principal and payment of interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non-

Performing Assets. The Notice under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 have been issued by Authorized Officer of Bank to Borrowers & Guaranters on their last known addresses. However, in some of the cases the notices have been returned unserved and in other cases acknowledgments have not been received. As such Borrowers/Guarantors are hereby informed by way of public notice about the same. Date of Demand Amount as per Description Of Movable/ Name of the Branch &

Borrower(s)/Guarantar	immovedale Properly/les	Nonce u/1 15(2)	Demand Notice
MALL ROAD, PATIALA Borrower(s): MJs D K Educational Charitable Society, 95 Phukian Endave. Patiala-147001, Through Trustee: 1. Sh. Sathir Singh Khatra (Vice President) Sio Ranhir Singh Khatra, House No. 52-B, Sarabha Nagar, Bhadson Road, Patiala-147001, 2. Sh. Tarlochan Singh (Treasurer) Sio Sh. Major Singh, VPO Rakhrateh and Distt. Patiala- 147001, 3, Smt. Jasvir Kaur	 Land Measuring 12 Bighas comprised Rhasra No. 1004 min(2-14-1/4) 1005min (4-0-1/4) of Khewat No. 139, Khatoni jamabandi for the year 2007-08 bound Land of Suril Dhawan, West Road, Ni Dhawan, South: Land of Narinderjit Sin DK. Educational Charitable Society of 17.06.2013., 2. Plot No. 109 min (Measur No. 110, Measuring 5-1/4 Biswas Le. 252 7/195 share of 9 Bighas 15 Biswas, or Rhasra Nos. 1433/B48(2-10), 1434/B48 in situated at Village Jassowal (After crossin Patiala), Tohsil & Disti Patiala, bounded at Singh etc. side-103'-11', South: Plot No. 	28.08.2020 (5-5-1/2) 1005 min No. 200, as par- ed as under: East; orth: Land of Sunit- gh, in the name of ide Regd. Gift During 1-3/4 Biswas i.e. Sq. Yards) total Me omprised in Khewal nin (2-05), 1436/849 ig the drain, doctors is under: North: Plot 109 min Nirmal Kar	Rs. 3,20,17,051/- along with interest on Term Loan @ 12,10% on monthly rests to be calculated from 11,08,2020 and No. 3555 Dates 86,5 Sq. Yards) & Pio asuring 7 Biswas being 7 Khata No. 532/1135 (2-10), 1437/849(2-10) colony, Bhadson Road no. 111 Or. Manmohan da side approximately
Member), VPO Rakhra, Tehsil and Dist. Patala-147001, 4. Smt. Amrinder Kaur (Member)	104'-11', East: Road-30'- ½", West: Doct Singh, vide Sale Deed No. 15220 dated 1 Wo Karamjit Singh, VPO Rakhra, Tehsi Ser Singh, VPO Rakhra, Tehsil and Dist. I	7.12,2010. and Distt. Patiala-1	47001, 5. Sh Karamjit

amjit Singh, VPO Rakhra, Tehsil and Distt. Patiala-147001, 5. Sh Karamji ngh (President) Sio Sh. Joginder Singh, VPO Rakhra, Tehsil and Dist. Patiala-147001, 6. Smt. Harmoet Kaur Wio Sh. Yadwinder Singh (Ec Member), VPO Rakhra, Tehsil and Distl. Paliala-147001, 7. Sh. Yadwinder Singh Sin Sh. Joginder Singh (Gen Sec), VPO Rakhva, Tehsil and Disti. Patiala-147001, 8. Smt. Preetinderpal Kaur Wis Sh. Sathi Singh Khatra (Joint Sec), House No. 52-B, Sarabha Nagar, Bhadson Road, Tehsil and Disti, Patiala-147001. & Guarantor(s): 1, Sh. Satbir Singh Khatra (Vice President) S/o Ranbir Singh Khatra, House No. 52-B. Sarabhai Nagar, Bhadson Road, Patala-147001, 2. Sh. Tartochan Singh (Treasurer) Sio Sh. Major Singh, VPO Rakhratsh and Disti. Patiata-147001, 3. Smt. Jasvir Kaur Wo Sh. Tarlochan Singh (Ec Member), VPO Rakhoa, Tehsii and Disti Patiala-147001, 4, Smt Amrinder Keur (Member) Wo Karamit Singh, VPO Rakhra, Tehal and Dist. Patiala-147001. Sh Karamjit Singh (President) S/o Sh. Joginder Singh, VPO Rakhra, Tehsil and Dist. Patiala-147001, 6. Smt. Harmeet Kaur Wo Sh. Yadwinder Singh (Ec Member), VPO Rakhra, Tehsil and Distt. Patala-147001, 7. Sh. Yadwinder Singh S/o Sh. Joginder Singh (Gen Sec), VPO Rakhra, Tehsil and Distr. Patiala-147001, 8. Smt. Proet, Inderpal Kaur Wio Sh. Satoir Singh Khatra (Joint Sec), House No. 52-B. Sarabha Nagar, Bhadsan Road, Tehsil and Distt. Patrala-147001.

The above borrowers/guarantors are advised to pay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the publication of this notice, failing which further steps will be taken as per provisions of Securitization. and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 after the expiry of 60 days. from the date of this notice. Borrowers/Guarantors are all also advised to collect the copy of notice from the concerned Branch.

DATE: 02.09.2020

AUTHORISED OFFICER



(Largest Manufacturer of Springs for LHB Coaches)

Registered Office: KM 25/4, Kalpi Road, Rania, Kanpur-Dehat. 209304 CIN: L17119UP1981PLC005212

E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http://www.frontiersprings.co.in

Tel. No. 0511-240212-13, 0512-2691207-08, Fax No. 0512-2691209 NOTICE

Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular dated 5th May, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide Circular dated 12th May, 2020 have allowed Companies to convene their Annual General Meeting (AGM) during the calendar year 2020 through Video Conferencing or Other Audio Visual Means (OAVM) and to send Annual Report for the for the Financial year 2019-2020 containing Notice of AGM, Board's Report, Financial Statements and other documents etc. only by e-mail to all members, due to prevailing COVID-19 pandemic.

In view of the said Circulars, it is informed that the Fortieth AGM of Frontier Springs Limited for the Financial year 2019-2020 will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 12.30 .P.M. (IST). through VC / OAVM and the Annual Report will be sent by e-mail to those shareholders whose e-mail IDs are registered with respective Depository Participants / Company as on cut -off date. Notice of the AGM can also be accessed from the website of the company i.e. www.frontiersprings.co.in and from the website of Bombay Stock Exchange (BSE) i.e. www.bseindia.com

The Company has provided facility for the Members to participate in the Fortieth Annual General Meeting through the VC/OAVM facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Members holding shares in physical form and who have not registered their email id with the Company may follow below instructions for attending the Meeting/e-voting:

Physical Holding	Please provide Folio No., Scanned Copy of the share certificate (front and back), Self attested scanned copy of PAN and Aadhar by email to c.s@frontiersprings.co.in or lalitap@alankit.com
Demat	Please provide 16 digit DPID- ClientID (16 digit DPID+ CLID or 16 digit Beneficiary

Holding	ID), Name, CML,Self attested scanned copy of PAN and Aadhar to c.s@frontiersprings.co.in or lalitap@alankit.com	
Registration	Members holding shares in physical form may forward request fpr registration of email	ı
of Email	id to the Company along with the documents as mentioned in Point No.1 above and	ı
address	along with copy of Cancelled Cheque (For ECS registration only). Members holding	ı

shares in Demat form may contact their DP for registration/update their email address and ECS Mandate l and bank details. Dividend: The Board of Directors has recommended a final dividend @ 11% i.eRs 1.1 per equity share for the Financial Year 2019-20 on Equity Shares which is subject to approval of

Further, members are also advised to register their Bank Account details in their demat accounts maintained with Depositories Participants or with the RTA, as the case may be, to enable credit of dividend amounts electronically, as and when dividend is declared by the Company. In the event the Company is unable to pay the dividend to any Member directly in their bank

shareholders at the ensuing AGM.

Place: - Kanpur

Date:- 31st August, 2020

accounts, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such Members, upon normalization of the postal services. For Frontier Springs Ltd.

Sd/-**Dhruv Bhasin**

(Company Secretary and Compliance Officer)



Notice is hereby given that the following shares bearing distinctive numbers are stated to have been lost/ misplaced or stolen and the registered holder(s)/ applicant(s) has/ have applied for issue of duplicate share certificate(s)

Shareholder Name(s) / Folio No. / No. of Shares	Details of Equity Shares Lost
KESRI DASS JAIN G/O	Dist No.(s): 3539978 - 3540727
ANIL KUMAR JAIN	13230491–13230940
FOLIO: ESC0017155 / Shares -2190	19503700-19504419
10LIO . L3C001/133/31lates -2190	27107069-27107203
	33357069 -33357203
PRAVINCHANDRA HARAKHCHAND	Dist No.(s): 1858235 - 1858249
PAREKH	2221845 – 2221862
FOLIO: ESC0162794 / Shares -757	2741981 – 2742007
	3703917 – 3703984
	5547302 - 5547423
	8800104 - 8800298
	13776038 – 13776349
KULDIPSALARIA MANDEEP KAUR FOLIO: ESC0082218 / Shares -120	Dist No.(s): 64396373 -64396492
VINOD GUPTA URMILA GUPTA	Dist No.(s): 38415744 – 38415893
FOLIO: ESC0318093/ Shares - 150	
C R CHETTY	Dist No.(s): 24301 – 24400
FOLIO: ESC0019826/ Shares -160	19614593 - 19614652
BELA SIHARE	Dist No.(s): 495801-495825
FOLIO: ESC0012394/ Shares - 250	1179080- 1179084
	1386254- 1386259
	3091977- 3091989
	5169355- 5169393
	7976831- 7976880
	12516303- 12516414
Any paraon(a) who has / have any	claim in respect of such aforesaid equity

Any person(s) who has / have any claim in respect of such aforesaid equity shares must lodge claim in writing with the Company within 15days from the date of publication of this notice otherwise Company shall cancel the original share certificate(s) and issue duplicate share certificate(s) to the registered holder(s) / applicant(s). Regd. Office:

15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003,Haryana Phone: 0129-2250222 E-mail: corpsl@escorts.co.in, Website: www.escortsgroup.com Date: 01.09.2020

10. Address and e-mail to be used for

correspondence with the liquidator

Shareholder Name(s) /

For Escorts Limited Satyendra Chauhan **Company Secretary** & Compliance Officer

Email ID- chadharun@yahoo.com

Email ID- chadharun@yahoo.com

Delhi - 110028

Address - E-95/2, Naraina Vihar, New

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF GULATI RETAIL INDIA LIMITED Details Gulati Retail India Limited Name of corporate debtor Date of incorporation of corporate debtor 18,12,2006 Registrar of Companies, NCT of Delhi Authority under which corporate debtor is incorporate/Registered U52599DL2006PLC156654 Corporate Identity No./ Limited Liability Identification No. of corporate debtor Address of the registered office and principal F-66, Rajouri Garden, New Delhi-110027 office (if any) of corporate debtor Date of closure of Insolvency Resolution 04.03.2020 Liquidation commencement date of 31.08.2020 corporate debtor Name: Mr. Arun Chadha Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator IBBI Reg. No. (IBBI/IPA-001/IP P00165/2017-18/10334) 9. Address and e-mail of the liquidator, as Address - 727 Brahmpuri, Meerut City registered with the Board U.P. -250002

11. Last date for submission of claims 30.09.2020 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench at New Delhi has ordered the commencement of liquidation of the Gulati Retail India Limited on 31.08.2020. The stakeholders of Gulati Retail India Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 30.09.2020 to the liquidator at the address mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Arun Chadha Place: Meerut Liquidator Regd. No. IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-18/10334 Date: 01.09.2020

> SRI AMARNATH FINANCE LIMITED CIN:L74899DL1985PLC020194

Read. Office: 4883-84, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006 Email:amarnath01finance@gmail.com, Tel: 011-23953204/23392222

PUBLIC NOTICE

Website: www.sriamarnathfinance.in

NOTICE is hereby given that 35th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Monday, 28 September, 2020 at 10.00 p.m. at A-73/1, G T KARNAL ROAD, INDUSTRIAL AREA, DELHI-110052, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act') MCA circular dated 5 May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020 (collectively referred to as 'MCA circulars') and SEBI circular dated 12 May 2020, to transact the business as set out in the Notice convening 35th AGM.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circular, electronic copies of the Notice of 35th AGM and Annual Report for FY 2020 will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depositary Participants. Shareholder holding share in physical mode and who have not updated their email

address, PAN and Banking Details with the company are requested to update above said information by writing to the company at amarnath01finance@gmail.com along with copy of signed request letter mentioning the name and address of shareholder, proof of Bank Details and self-attested copy of PAN/ any other identity and address proof.

email address and Banking Details with their Depository Participant. The Notice of 35th AGM and Annual Report for FY 2020 will also be made available on

Shareholder holding share in dematerialized mode are requested to register/update their

the Company's website at http://www.sriamarnathfinance.in/, website of the stock exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members

to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of 35th AGM. For SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

Rakesh Kapoor

("AGM") of the Members of Gang

Date: 01.09.2020 Place: New Delhi

(Managing Director)



Ph: 0141-4023650; Email: secretarygpl84@gmail.com; Website: www.gpl.co.in NOTICE OF THE THIRTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Plastfab Limited ("The Company") will be held at 3:00 P.M. on Saturday, 26th September 2020 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 01st September, 2020 in compliance with the provisions of the Companies Act. 2013 ("the Act") read with General Circular dated May 05, 2020, April 08. 2020 and April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI-Listing Regulations") and circular dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the members at a common venue. Electronic copies of Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2019-2020 have

been sent to all the members on Tuesday, 01st September, 2020 whose e-mail addresses are registered with the Company. The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the members has been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular. These documents will also be available on the Website of the company at www.gpl.co.in and stock exchange at www.cse-india.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing E-Voting facility to its Members through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means ("remote E-voting").

In this regards, the members are hereby further informed that:

otice is hereby Given that 36th Annual General Meeting

 The remote e-voting period will be commence on Wednesday, 23rd September, 2020 at 10:00 A.M. and ends on Friday, 25th September, 2020 at 5:00 P.M their after the remote e-voting facility shall be disable by CDSL for voting.

A person whose name is recorded in the registrar of members or in the register of beneficial

owners maintained by the company as on the cut-off date i.e. Saturday, 19th September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. The detailed procedure/instructions for remote e-voting or e-voting at the AGM are contained in the Notice

 A member may participate in AGM through VC/OAVM even after exercising his/ her right to vote through remote E-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

d. The Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-2020 is available on the Company's website at www.gpl.co.in and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com. In case of any queries/grievances in connection with the remote E-voting and the E-voting in the

AGM or if the members need any assistance before or during the AGM, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and can download Remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under the help section of CDSL or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or at toll free No.: 1800225533 or mail at secretarygpl84@gmail.com. For GANPATI PLASTFAB LIMITED

Place: Jaipur

New Delhi

Date: 2nd September, 2020

M. No. A58855

Company Secretary & Compliance Officer

Harshita Khandelwal

कम्पनी रजिस्टार, रा.रा. क्षेत्र दिर्ल्ल निगमित/पंजीकृत है का U52599DL2006PLC156654 लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकत कार्यालय तथा एफ-66, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-11002 प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या आईबीबीआई पंजी. सं.: (IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-18/10334) ाताः ७२७, ब्रह्मपुरी, मेरठ सिटी, उ.प्र.-250002 ईमेल आईडीः chadharun@yahoo.com पताः ई-95/2, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 ईमेल आईडीः chadharun@yahoo.com वाला पता तथा ईमेल एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने नई दिल्ली में 31.8.2020 को गुलाटी रिटेल इंडिया लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

एतदृद्वारा गुलाटी रिटेल इंडिया लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 30.9.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल केडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी केडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00165/2017-18/10334

सनराईज डिस्टिलरीज लिमिटेड CIN: L15511DL1985PLC021272

पंजीकृत कार्यालयः 3/14ए, प्रथम तल, विजय नगर, डबल स्टोरे, दिल्ली-110009 संपर्क नं.: 011-27132054, 09868008427 इमेलः sunrisedistillerieslimited@gmail.com

वेबसाइटः www.sunrisedistilleries.com

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 1.9.2020

स्थानः मेरठ

सूचना

जारी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 मई, 2020 के परिपत्र के सा पठित 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र को देखते हुए वीडियो-कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडियो-विजअल विधि (OAVM) के माध्यम से एजीएम को रखने की अनुमति दी है। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 औ सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में कंपर्न की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') बुधवार, 30 सितंबर, 2020 अपराह्न 03.00 बजे वीसी/ओएवीएम वे

पूर्वोक्त परिपत्र के अनुसार, एजीएम का नोटिस केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा जाना है, जिन -मेल आइडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पूर्व की प्रथाओं वे समान ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, एजीएम की सुचना और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पास पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। यदि आपने अपनी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं की है. तो कृपय एजीएम सूचना प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के लिए अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए निदेशों का पालन करें।

इंमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एं कंप्यटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड को beetalrta@gmail.com पर एक अनरोध भेजें, जिस पर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (फ्रंट और बैक) की स्कैन कॉपी, पैन (पैन कार्ड की सेल्प अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी)। कपया अपना बैंक विवरण मुल रद्द चेक के साथ हमारे आरटीए बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड बीटल हाउस, तीसरी मंजिल 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दाता हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062, संपर्क नंबर 011-29961281-282 के साथ पर फोलियो नं. वर्णित

कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान, यदि कंपनी द्वारा घोषणा की गई है तो अपने डीपी के साथ अपने

एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.sunrisedistilleries.com और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.msei.in पर भी उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भार लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा कृते सनराईज डिस्टिलरीज लिमिटेड

ह./- यशिका सिन्हा स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 01.09.2020 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार्र

सर शादी लाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन: L51909DL1933PLC009509 पंजी. कार्यालय : ४ए, हंसालय, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली –110001 ई—मेलः Cs@ Sirshadilal.com फोनः 011-23316409

वेबसाईटः www.sirshadilal.com सर शादी लाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड की 86वीं वार्शिक साधारण बैठक की सूचना जो वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम द्वारा आयोजित की जाएगी।

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सर शादी लाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 86वीं बार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को सूबह 11:00 बजे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र क्र. 18 / 2020 दिनांकित 08 अपेल. 2020. क्र. 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल. 2020 और क्र. 20 / 2020 दिनांकित ०५ मई, २०२० (''एमसीए परिपत्रों'') और कंपनी अधिनियम, २०१३ के उन्य लाग् प्रावधानों और सेबी द्वारा जारी किए गए दिनांकित 12 मई, 2020 के परिपत्र (''सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में, एक सार्वजनिक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, इलेक्टॉनिक प्रणाली वीडीयो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'') या अन्य ऑडियो विजुअलगाध्यम (''ओएवीएम'') द्वारा 86वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए अनुसार कारोबार का लेन–देन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में, 86वीं एजीएम की सूचना की ई—वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देशों की और 2019—2020 के बार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके इमेल आईडी कपनी / डिपॉजिटरी के साथ

जिन्होंने अपना इमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यों को अनुरोध हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संदर्भ में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटर के माध्यम र डिपॉजिटरी के साथ अपना इमेल पता पंजीकृत कराएं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संदर्भ में रजिस्टार एन्ड टांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड, सर शादी लाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, 4ए, हंसालय, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली —110001 को लिखकर अपना इमेल पता पंजीकृत कराएं

सदस्यों से अनुरोध है कि वें वार्षिक रिर्पीट 2019—2020 तथा नोटिस को प्राप्त करने के लिए cs@sirshadilal.com पर भी ईमेल कर सकते है।

86वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.sirshadilal.com पर, आरटीए की वेबसाइट https://alankit.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की आर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों https://www.bseindia.comऔर) पर उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा दोनों रिमोट ई–वोटिंग और ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सविधा प्रदान करेगी। 86वीं एजीएम की सूचना में एजीएम और रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

> सर शादी लाल एन्टरप्राइजेज के लिए अजय कुमार जैन. कम्पनी सचिव सदस्य संख्या– एफ 5826

optiemus ऑप्टीमियस इन्फ्राकॉम लिमिटेड

सीआईएन : L64200DL1993PLC054086

पंजीकृत कार्यालय : के-20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर पार्ट-2, नई दिल्ली-110024 कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 2ए, प्रथम तल, सेक्टर 126, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 वेबसाईट : www.optiemus.com ई-मेल : info@optiemus.com दूरभाष : 0120-6726800

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों तथा सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'') द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुपालन एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष प्रकार्य के लेन-देन के लिए कम्पनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') वीडियो कांफ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 2.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले शेयरधारकों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में वित्त वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ केवल उन सभी शेयरधारकों के पास भेजी जायेंगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.optiemus.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात www.bseindia.com तथा www.nseindia.com एवं सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी

प्रासंगिक डिपॉजिटरी के साथ अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के माध्यम से पंजीकृत करा लें। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('बीटल'), बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, नई दिल्ली-110062, दूरभाष : 011-29961281-83; फैक्स : 011 29961284; ई-मेल : beetal@beetalfinancialcom के पास अपने ई-मेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर का उल्लेख करें। शेयरधारकों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से रिमोट ढंग से अपना मतदान करने का अवसर होगा। अभौतिक प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरक तथा जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग की रीति एजीएम की सूचना में उपलब्ध करायी जायेगी जो कम्पनी की वेबसाइट

www.optiemus.com पर भी उपलब्ध होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान

27वीं एजीएम की सूचना प्रयोज्य कानूनों के अनुसार शेयरधारकों को उनके ई-मेल पते पर शीघ्र ही भेज दी जायेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार ऑप्टीमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड

> विकास चन्द्रा कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064215

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087 Website: www.mohindra.asia, Email id: cs@mohindra.asia, Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11-46200444

INFORMATION REGARDING THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that:

The 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, the 29"September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing 'VC'/ Other Audio Visual Means 'OAVM' without the physical presence of Members of the Company at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Ministry of Corporate Affairs Circulars vide Nos. 20/2020, 17/2020 & 14/2020 dated May 5, 2020, April 13, 2020 and April 18, 2020 respectively and SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as "the said Circulars"), to transact the business as set out in the Notice convening 26° e-AGM.

In compliance with the MCA & SEBI Circulars, the Electronic Copies of Notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 shall be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/Share Transfer Agent. Members of the Company holding shares either in physical form or in Dematerialized forms as on Benpose date i.e. Friday 28th August, 2020 will receive Annual Report along with notice of 26" AGM for the financial year 2019-20 through email only. The Notice of the 26" AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.mohindra.asia, website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in and website of the NSDL www.evoting.nsdl.com.

For members who are holding shares in physical form and who have not registered their email address and contact numbers with the Company/Depositories/Share Transfer Agent (RTA) and also in case you have not updated your bank account mandate for receipt of dividend, you may kindly register/update the same by following the process/instructions as provided in the notes of the Notice of 26" AGM:

Physical Holding: Send a signed request letter mentioning Folio No., Name of member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Company/RTA at cs@mohindra.asia /compliances@skylinerta.com. The e-mail address will be registered after verification of the signatures in the request letter with that shown on

Following additional details need to be provided in case of updating details of Bank Account mandate:

a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend;

b) the Bank Account type;

ZUARI

SUGAR

c) Bank Account Number;

d) 9 digit MICR Code Number; e) 11digit IFSC Code; and

f) a scanned copy of the cancelled cheque bearing the name of the first member.

Please note that members may also use this link http://www.skylinerta.com/EmailReg.php to update their Email id, PAN & Contact number at the website of our Registrar of Share Transfer Agent M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Kindly note that your Email/ Mobile/PAN is being registered here temporarily and is subject to verification. Members holding shares in physical form may get their KYC updated by sending request to RTA at

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their vote on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will also provide the facility through e-voting system during the AGM. The instructions to participate/join the AGM and the manner of casting the votes through Remote E-voting and E-Voting during the AGM by the members who are holding shares in physical form or who are have not registered their email addresses with the company will also be provided in the notes of the Notice of the 26'

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

> By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited

Date: 01.09.2020 Nidhi Pathak

Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड

CIN: L15421DL1952PLC354222 पंजी. कार्यालय: बिरला मिल कॉम्प्लैक्स. पी. ओ

बिरला लाईन्स, जीटी रोड, नजदीक क्लॉक टॉवर, कमला नगर, उत्तरी दिल्ली-110007 फोन: +91-11-30140300, इमेलः ig.gsml@adventz.com , वेबसाइटः www.zuarisugar.com

68वीं (अड़सढ) वार्षिक सामान्य बैढक की सूचना

एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (इसके बाद सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम. 2013 के लाग प्रावधान के अनुपालन में 68वीं वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में निर्धारित व्यापार को करने के लिए गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 68वीं (अड़सठ) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 को दोपहर 02.45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्ञल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों की अनुपालना में, एजीएम सुचना तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपर्न के सदस्यों को मंगलवार, 01 सितंबर, 2020 को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.zuarisugar.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.msei.in पर भी उपलब्ध हैं। इसकी एक प्रति लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लिंक इनटाईम) की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध

कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के साथ पठित सेबी (आपत्तियों के सुचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियमन 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी अपने सभी सदस्यों को व्यवसायों के संबंध में सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") प्रदान कर रही है। 68वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("ई-वोटिंग") के दौरान ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में लिंक इनटाईम की सेवाओं को शामिल किया है। सदस्यों को लिंक इनटाईम ई-वोटिंग सिस्टम के इंस्टामीट पोर्टल पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके शेयरधारकों/ सदस्यों के तहत https://instavote.linkintime.co.in पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी की ईवेंट का प्रदर्शन किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग और एजीएम को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया 68वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में प्रदान की गई है।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 तथा कथित नियमों के प्रावधानों के अनुवर्ती विवरण नीचे दिया गया है:

ईमेल द्वारा सूचना के प्रेषण के पूरा होने की तिथिः **मंगलवार**, 01 **सितंबर**, 2020

अनुरोध भेजकर मतदान के लिए अनुक्रम संख्या प्राप्त कर सकता है। ।

- रिमोट ई-वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि और समयः सोमवार, 21 सितंबर, 2020 प्रातः (10.00)
- रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समयः वीरवार, 24 सितंबर, 2020 (अपराह्न 05.00 बजे) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को **वीरवार, 24 सितंबर, 2020 को अपराह्न 05.00 बजे** के बाद अनुमति
- नहीं दी जाएगी। सभी सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तारीख के अनुसार सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, यानी **शुक्रवार**,
- 18 सितंबर, 2020 रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमित
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में
- शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ डेट यानी शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 तक शेयरों धारक है वह kolkata@linkintime.co.in पर
- यदि सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे instameet@linkintime.co.in पर ईमेल या कॉलः +91 (022) 4918 6175 कर सकते हैं।

ईमेल पते का पंजीकरण:

कंपनी के सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना सही ईमेल पता दर्ज नहीं किया है या अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 68वीं एजीएम बलाने वाले नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों को प्राप्त करने के लिए तुरंत ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें। निम्नलिखित तरीके सेः

भौतिक धारक सदस्य: फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन (स्वयं सत्यापित कॉपी) का उल्लेख करने वाले अनुरोध पत्र की एक हस्ताक्षरित स्कैन की हुई कॉपी कंपनी की ई-मेल आईडी ig.gsml@adventz.com और / या कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ईमेल kolkata@linkintime.co. in पर भेजी जा सकती है।

डिमैट धारक सदस्य: डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ रखे गए डीमैट खाते में ईमेल पता दर्ज करें। इसके अलावा, ऐसे सदस्य कंपनी के 68वें एजीएम और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट डीपी आइडी और क्लाइंट आइडी (16 अंक डीपी आइडी + क्लाइंट आइडी या 16 अंकों का बेनिफिशियल आइडी) जमा करके कंपनी के साथ ईमेल पते को अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं नाम, क्लाइंट मैटर या समेकित खाता विवरण की प्रति और पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां और पते के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आदि को iq.qsml@adventz.com पर इमेल करके और/या कंपनी के आरटीए,लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ईमेल kolkata@linkintime.co.in पर भेजी जा सकती है।

कृते गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड

गौरव दत्ता कंपनी सचिव टेली: +91(22)66699000, फैक्स: 24900314, ईमेल: communications@yesbank.in, वेबसाईटः www.yesbank.in, CIN: L65190MH2003PLC143249

सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा उनकी फैसिलिटी खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर उन्हें सचनाएं जारी की गई लेकिन वह अन-सर्ब्ड वापस लौट आई और इसीलिये उन्हें इस सार्वजनिक सचना के माध्यम से सचित किया जा रहा है।

J.	ऋणधारक/गारन्टर(रों)/प्रतिभूति प्रदाता/ओं का नाम	सम्पत्तियों / प्रवर्तित की जाने	सूचना	एनपीए	बकाया राशि
П	i i	वाली प्रतिभूत परिसम्पत्तियों	तिथि	तिथि	(३० अप्रैल,
П		के पते का विवरण			2019 को)
П	1. प्रवीण कुमार, पुत्र बलवीर सिंह मकान सं. 245, सेक्टर 40 एचयूडीए, पानीपत-	प्लॉट नं. 234 सेक्टर-40,	15	15 जन.	आईएनआर
Ш	132103, हरियाणा	एचयूडीए, पानीपत-132103,	जुलाई,	2020	16,26,009.34
П	साथ हीः 1058, प्रकाश नगर, तहसील कैम्प, पानीपत-132103, हरियाणा	हरियाणा	2020		(रुपये सोलह
	साथ हीः मै. राजा एण्टरप्राईजेज, शेड नं. 1, राज गार्डन्स के समीप, सेक्टर-25,	चौहदीः			लाख छब्बीस
	एचयूडीए, पानीपत-132103, हरियाणा	उत्तरः प्लॉट नं. 227,			हजार नौ तथा
П	(ऋणधारक)	दक्षिणः रोड,			पैसे चौंतीस
	2. पूनम, पत्नी प्रवीण कुमार मकान सं. 245, सेक्टर 40 एचयूडीए, पानीपत-132103, हरियाणा	पूर्वः प्लॉट नं. 235,			मात्र)
	साथ हीः 1058, प्रकाश नगर, तहसील कैम्प, पानीपत-132103, हरियाणा	पश्चिमः प्लॉट नं. 233			
	साथ ही: मै. राजा एण्टरप्राईजेज, शेड नं. 1, राज गार्डन्स के समीप, सेक्टर-25,				
	एचयूडीए, पानीपत-132103, हरियाणा (सह-ऋणधारक)				
		1. 1020			2 2 2

एतदुद्वारा उपरोक्त ऋणधारकों एवं/अथवा उनके गारन्टरों/मार्टगैजरों (जहां भी लागू हो) को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये राशि का भूगतान करें जिसमें विफल होने पर उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जायेगी।

इतना ही नहीं. सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि यदि हमारे द्वारा वहन की गई सभी लागतों. चार्जेज तथा खर्चे के साथ यदि हमारी बकाये का बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय पर भूगतान कर देते हैं तो हम प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण नहीं करेंगे तथा उस प्रतिभृत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण के लिये हम आगे कोई कदम नहीं उठायेंगे।

तिथि: 02.09.2020 स्थानः पानीपत

यस बैंक लिमिटेड के लिये

प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय वसुली अधिकारी-II, ऋण वसुली अधिकरण-III, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001 एचडीएफसी बैंक बनाम मान्या फूड्स प्रा.लि. एवं अन्य ई-नीलामी बिक्री सुचना

आर.सी. सं. 495/2019 दिनांक : 22.08.2020 कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 22.08.2020 के अनुसार ई नीलामी द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री एचडीएफसी बैंक बनाम मान्या फूड्स प्रा.लि. एवं अन्य के मामले की जाएगी। यह नीलामी बिक्री वेबसाईट : https://www.bankeauctions.com पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी। नीलामी की तिथि एवं समय : 30.09.2020 को 03.00 बजे अप. से 04.00 बजे अप. (आवश्यकतानुसार यदि जरूरी हुआ तो बन्द होने के पूर्व अन्तिम 5 मिनट मिनट में रखी जाती है तो स्वतः विस्तार के साथ)

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य∕ईएमडी
(i)	0-75, भूतल, खसरा नं. 123, 124 एवं 125 का भाग, ग्राम राजपुर छावनी, आबादी न्यू गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली पर स्थित	रु. 31,90,0001−
		ईएमडी : रु. 3,19,000/-
(ii)	बी-76-A, खसरा नं. 120, 124 एवं 125 का भाग, ग्राम राजपुर छावनी के क्षेत्र में, आबादी न्यू गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली भूतल पर स्थित	
		ईएमडी ः रु. 17,55,000/
(111)	फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. बी-11, खसरा नं. 129, ग्राम राजपुर छावनी के क्षेत्र में, न्यू गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली के क्षेत्र में स्थित, खसरा नं	1 1
	572/131,133,134,135,137 तथा 138.	ईएमडी : रु. 3,54,000/-
(iv)	आवासीय प्लॉट सं. 156, अर्बन एस्टेट सेक्टर-15, सोनीपत, तहसील एवं जिला में स्थित	₹. 97,22,389/-
		ईएमडी : रु. 9,72,238/-
(v)	एल शेप दक्षिणी ओर, सम्पत्ति सं. 40 की दूसरी मंजिल, सम्पत्ति सं. बी-40, टेरेस/छत के अधिकार के बिना, खसरा नं. 196 में से, गर्ल	
	नं. २, दिल्ली, ग्राम राजपुरा छावनी, न्यू गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली पर स्थित	ईएमडी : रु. 33,700/-
v(a)	सम्पूर्ण प्रथम तल, बिल्ट अप सम्पत्ति निगम सं. 4122, नया बाजार, कॉमर्शियल बिल्डिंग में स्थित का भाग, मेज सहित, नया बाजार,	रु. 1,50,00,000/−
	दिल्ली	ईएमडी : रु. 15,00,000/
(vi)	बी-76-A, खसरा नं. 123, 124, 125 में निर्मित दो मंजिले पुराने मकान से निर्मित, न्यू गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली में स्थित	₹. 1,81,82,000/-
		ईएमडी : रु.18,18,220/-
(vii)	सम्पत्ति सं. 4003 एवं 4004, पुराना प्लॉट सं. 1906 सम्पत्ति पर निर्मित एक दुकान, वार्ड सं. III, बर्न बिस्टन रोड, मेन रोड, नया बाजार,	
	दिल्ली पर स्थित	ईएमडी : रु. 9,10,000/-
	नियम एवं शर्तें :	0.

नीलामी/संविदा बिक्री केवल वेबसाईट के माध्यम से ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।

2. इच्छुक संविदाकार ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पहले ही सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत हो लें और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर लें। यह केवल तभी खरीदी जा सकती है जब निर्धारित माध्यम में अपेक्षित जमा धरोहर राशि अदा कर दी जाये। ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डिमांड डाफ्ट/पे आर्डर द्वारा मृहरबन्द लिफाफे में 28.09.2020 तक जमा की जानी है। इसके

पश्चात जमा की गयी ईएमडी पर ई-नीलामी में भाग लेने हेतु विचार नहीं किया जायेगा। यदि वे स्वयं या अपने प्रिंसपल्स की ओर से बोली लगा रहे हैं तो पैन कार्ड, पते के प्रमाण एवं पहचान के प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. तथा घोषणा पत्र। बात के मामले में उन्हें अपने प्राधिकार जमा करने अपेक्षित हैं और इसमें चक पर उनकी संविदाएँ अस्वीकार कर दी जायेंगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सस्यों द्वार पारित संकल्प की प्रति अथवा कम्पनी का प्रतिनिधान/अटॉर्नी की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज अथवा ऐसे जमा की रसीद/काउंटर फाइल ई-मेल अथवा अन्य माध्यम

से कथित तक कथित सेवा प्रदाता या सीएच बैंक के पास पहुँच जानी चाहिए तथा हार्ड कॉपी रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा की जानी है। इच्छक बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लि.. प्लॉट नं. उद्योग विहार, फेज 2, भवन सं. 301, गरुग्राम, हरियाणा (भारत), दरभाष : +9 7291981124/25/26 सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान, मोबाइल नं. 9813887931 ई-मेल आईडी : support@bankauctions.com वेबसाइट

Https://www.bankeauclions.com. से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। किसी पूछताछ के लिए इच्छुक क्रेता श्री यु.वी. पाटिल, सहायक, वसली खण्ड, डीआरटी-III से सम्बद्ध, से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्भावित बोलीदाताओं को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.bankeauctions.com देखने का परामर्श

आरक्षित मल्य से कम पर सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। संविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 50,000 (प्रत्येक सम्पत्ति हेत) के गणक में बढायेंगे।

सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे तथा जो भी यही है आधार'' पर की जा रही है। किसी प्राधिकरण का सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कोई बकाया, यदि हो, तो वह क्रेता/क्रेताअं 10. सफल संविदाकार को नीलामी के पश्चात ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री प्रक्रिया का 25% अगले दिन अर्थात 3.00 बजे अप. तक उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित

विवरण के अनुसार कथित खाते में जमा करना होगा। यदि अगला दिन अवकाश या रविवार है तो अगले प्रथम कार्यालय दिवस पर। 11. सफल संविदाकार अन्तिम संविदा राशि का शेष 75% संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस को रु. 1000/- तक 2% रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के समक्ष तथा 1000 से अधिक की सकल राशि

पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क सहित रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी द्वारा भुगतान करना होगा 12. निर्धारित अविध के भीतर भुगतान में चूक करने की स्थिति में बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो सरकार के पक्ष में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। बिक्री की नवीन उद्घोषणा के पश्चात सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अन्तिम संविदा राशि तथा बाद में बेची गयी राशि

के बीच कोई कमी या अन्तर के लिए भी उत्तरदायी होंगे। 13. रिकवरी अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी संविदा या संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा नीलामी को स्थगित या निरस्त करने का अधिकार है

14. असफल संविदाकार/रों को अपनी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सनवाई की निर्धारित तिथि को या इससे पर्व डीआरटी-III की रजिस्टी में पहचान के प्रमा सिंहत एक आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है जिसे तदनुसार आरसी की सुनवाई की तिथि की अनुसूची/अनुगामी तिथि पर वापस कर दिया जायेगा। 15. सीएच बैंक को ई-नीलामी सुचना अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में उस स्थान पर व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा जहाँ सम्पत्ति स्थित है तथ

16. सीएच बैंक के काउंसेल को यहाँ ऊपर पैरा की पष्टि को प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है। मामले को विक्रय उद्घोषणा के शपथपत्र पूर्ण करने तथा 22.09.2020 को भावी कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया जाये।

सीडी निवास करता है अथवा लाभ के लिए कार्य करता है। बैंक नीलामी की तिथि तक पैम्फलेट वितरित कर अथवा डम बजाकर व्यापक प्रचार कर सकता है तथ इसकी रिपोर्ट इस अधिकरण को भी करनी होगी।

> (विकास जेटली वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली



SHALIMAR PAINTS LIMITED

Read. Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32 Gurugram -122001, Haryana Website: www.shalimarpaints.com Email: askus@shalimarpaints.com, Ph No.: 0124-4616600

REGULATION 47 (1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

EXTRACTS OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED JUNE 30, 2020

(Rs in Crore except for Shares and EPS Standalone Financial Information

Quarter Ended Year Ended SI. 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 **Particulars** (Unaudited) (Audited) (Audited) (Unaudited) Total Income from Operations 44.48 83.43 85.06 343.85 EBITDA# (33.23)0.26 (32.40)(4.96)Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or (12.85)(41.97)(6.16)(63.10)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or (14.85)(35.02)(6.16)(56.15)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or (10.61)(22.36)(5.35)(38.18)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profits /(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) (10.60)(22.34)(5.35)(38.03)10.86 10.86 10.86 Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each) 10.86 262.01 Earnings Per Share (Face Value of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic (7.03)(1.95)(4.12)(0.99)

Diluted* (1.95)(4.12)(0.99)(7.03)Standalone Financial Information Quarter Ended Year Ended SI. 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 **Particulars** No. (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 44.48 Total Income from Operations 83.43 85.06 343.85 EBITDA# (4.88)(33.16)0.33 (32.11)Net Profit for the period before tax (14.77)(34.95)(6.08)(55.85)Net Profit for the period after tax (10.53)(22.29)(5.30)(37.88)* Anti-dilutive

#EBITDA= Earning before Interest, Tax and Depreciation & Amortization

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the guarter and period ended June 30, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the quarter and period ended June 30, 2020, is available on the website of Stock Exchanges at (www.bseindia.com/www.nseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.shalimarpaints.com).

On 4th Jan 2019, The parent company has allotted 3,11,43,042 equity shares of face value Rs. 2/- each at the price of Rs. 64.50/- per share (including premium of Rs. 62.50/- per shares) aggregating to Rs. 200.87 Crore to the eligible equity shareholders on right basis in the ratio of 3 equity shares for every 2 equity shares held. been been utilized in the following manner

Particulars	Proposed to be utilised as per Letter of offer	Proposed to be utilised (revised)*	Utilised till March 2020	Utilised during the financial year 2020-21	To be utilised
Project of reinstatement of paint manufacturing plant at Nashik	45.68	44.92	42.46	0.11	2.36
Setting up of Regional Distribution Centre (RDC) at Nashik	3.40	0.40	0.40		
Long Term Working Capital Requirements	117.38	121.14	121.14	(*)	
General Corporate purposes	34.15	34.15	34.15	880	8
Expenses for Rights Issue	0.26	0.26	0.26	9 057	0.00
Total	200.87	200.87	198.41	0.11	2.36

There is increase in the allocation of funds towards Long Term Working Capital Requirement, and the same has been allocated through reduction in Nashik project (including RDC) cost.

These Consolidated Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on Sept 1, 2020. Limited Review of these results are in accordance with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors.

For and on behalf of the Board Ashok Kumar Gupta **Managing Director**

DIN: 01722395

Place: Gurugram Date: Sept 1, 2020

www.readwhere.com

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

तिथि : 01—09—2020 स्थान : नई दिल्ली

अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अपने ई–मेल पते तथा मोबाइल नम्बर अपने

तिथि : 01 सितम्बर, 2020

दिनांकः 02 सितंबर. 2020

स्थानः दिल्ली

De-mat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address, contact numbers and bank account details in your de-mat account, as per the process advised by your DP.

email Id compliances@skylinerta.com and members holding shares in de-mat form can contact their Depository Participant

AGM. Members are requested to kindly view the same.